



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अक्टूबर 27, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 65 वाहनों का चालान किया गया ।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त मोतीलाल पुत्र झीनक नि0 डिगही थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/22 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.लीलावती पत्नी मोतीलाल 2.रुकमणी पत्नी श्रवण नि0 व थाना ठूठीबारी थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज प्रत्येक के कब्जे से 15-15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/22 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त सुरेश पुत्र श्रीकांत नि0 सेवतरी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 119/22 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त अशोक पुत्र विश्राम नि0 निपनिया थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 121/22 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त आदित्य पुत्र घनश्याम नि0 आजाद नगर थाना निचलौल के कब्जे से 250ग्राम चरस,2100/रू0 नगद व मो0सा0 01 अदद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 531/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 26/27.10.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 37 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।